

June 26, 2024

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001 **National Stock Exchange of India Limited**

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai – 400051

BSE - 500495

NSE - ESCORTS

Sub: Newspaper Publication titled "Notice of 78thAnnual General Meeting and E- voting Information"

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform you that Company had published the enclosed notices dated June 25, 2024 intimating the dispatch of Notice of the AGM and Integrated Annual Report of 78th Annual General Meeting of the Company, and other related information, in the newspapers i.e. Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) dated June 26, 2024.

The above is for your kind information and records.

Thanking You,
Yours faithfully,
For Escorts Kubota Limited

Arvind Kumar Company Secretary

Encl.: As above

FINANCIAL EXPRESS

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

(भारत सरकार का उपक्रम)

SYNERGY INSOLVENCY PROFESSIONALS LLP - NOIDA REGISTRATION NO. IBBI/IPE/0104 PUBLIC NOTICE

We are an IPE with a pan-India presence. We specialize in the periodic sale of various types of plant and machinery, including: Distressed Assets: Including Commercial Land, Building, Equipment and

Used Plant and Machinery

Direct To Home (DTH) Broadcasting Equipment:

We invite applications from parties who deal in the above equipment categories to empanel with us. By becoming part of our empanelled network, you will receive inquiries and opportunities related to the buying and selling of these assets. If interested, please submit your application to join our empanelment process. Noida: 26.06.2024 **Authorised Signatory**

> For Synergy Insolvency Professionals LLP Praveen Agarwal 906, I- Thum Tower "A" Sector 62 Noida Cell: 9720108105 E mail ID: praveen.agrawal@synergyipe.com

> > "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify

its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot

be held responsible for such

contents, nor for any loss or

damage incurred as a result of

transactions with companies,

associations or individuals

advertising in its newspapers

or Publications. We therefore

recommend that readers

make necessary inquiries

before sending any monies

or entering into any

agreements with advertisers

or otherwise acting on an

advertisement in

manner whatsoever.

੧ਓ ਸ਼ੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਰਹਿ E-AUCTION Punjab & Sind Bank पंजाब एण्ड सिंध बैंक (Sale through (A Govt. of India Undertaking) **E-Auction only)** Where service is a way of life

SAMVerT; 1st Floor, Plate B, Block 3, NBCC Building, East Kidwai Nagar, New Delhi- 110023 E-mail: ho.samvertical@psb.co.in [APPENDIX-IV-A] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY E-Auction Sale Notice for sale of immovable assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of

Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. **Property Inspection Date & Time: Last Date of BID Submission:** E-auction Date & time: **24.07.2024**, 11:30 A.M to 12:30 P.M. **22.07.2024** at 11.00 AM to 1.00 PM 23.07.2024 upto 5.00 P.M.

Notice is hereby given to public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged to the secured creditor, the **Physical** possession of which has been taken by the Authorized Officer of Punjab & Sind Bank (secured creditor), will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" basis for realization of bank dues. The same will be done through E auction platform provided at web portal (https://www.bankeauctions.com).

	Name of Borrower(s) / Guarantor(s)	Description of Properties	Minimum Reserve Price (Amt. in Lacs)	Demand Notice U/s. 13(2)
			EMD Amount	Present O/S
			Bid Increase Amount	(Secured debt)
Ī	M/s. Singhal Strips Ltd. (under CIRP)	Residential property no. C 10/11,	1098.00	09.10.2018 for
	Regd. Office- Plot no. 64, 65 & 66 Khasra No. 624 Mpl. No. 440/1, Bhola Nath Nagar, Shahdara, Delhi	B.M. Rohtagi Apartments, 1 Ram	109.80	Rs.45,43,17,043/-
	Director cum Guarantor:	Kishore Road, Civil Lines (Behind IP	1.00	Rs. 92,42,99,327/-
	- Sh. Prem Chand Singhal S/o Banwari Lal (Deceased, through Legal Heirs)	College), Delhi 110054 built on land		as on 31.05.2024
	- Sh. Shankar Lal Singhal S/o Prem Chand Singhal	measuring 415.15 sq. yards. (347.12		plus future interest
	Guarantors / Mortgagors:	sq. meters) through sale deed		w.e.f 01.06.2024,
	- Smt. Anita Singhal W/o Shankar Lal Singhal	registered as document no. 8815		costs, other
	- Sh. Shankar Lal Singhal S/o P.C Singhal.	addl. book 1 Volume 2785 at pages		charges and
	- Sh. Ajay Kumar Singhal S/o Prem Chand Singhal	185-195 dated 29.12.2008 in the		expense thereon.
	- Smt. Bimla Devi W/o Prem Chand Singhal	name of Bimla Devi W/o Prem Chand		
	(Deceased, through Legal Heirs)	Singhal		

Authorized Officer- Mr. Simarjit Khokhar, Chief Manager Mobile: +91-8860925237 EMD submission A/C Details-A/C Name- NEFT INWARD STP PARKING, A/C No. 06065040070003, IFSC Code- PSIB0000606

Branch Name- Punjab & Sind Bank, Rajendra Place, New Delhi-110008

Status of Possession- Physical Possession Date of Physical Possession-09.08.2019 THIS NOTICE SHALL ALSO BE TREATED AS 15 DAYS STATUTORY SALE NOTICE TO BORROWER & GUARANTORS (LRs) UNDER RULE 8(6) SARFAESI SECURITY

INTEREST (ENFORCEMENT) RULES-2002. For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in:- 1. https://www.bankeauctions.com. 2. https://www.punjabandsindbank.co.in

DATE: 25.06.2024, PLACE: NEW DELHI AUTHORISED OFFICER, PUNJAB & SIND BANK

SPL SME OKHLA INDUSTRIAL ESTATE BRANCH (DP- 0348) केवारा बैक 📣 Canara Bank 269 & 270, Fruit & Vegetable Market, DDA Okhla Industrial Estate, -110020 Contact no: 9818890348; cb0348@canarabank.com ANNEXURE - 2 **DEMAND NOTICE [SECTION 13(2)]** TO BORROWER/ GUARANTOR/MORTGAGOR

Ref: SARFAESI/348/BAC/01/2024-25 M/S BHARAT ALU COMPANY, D-1, FIRST FLOOR, FLAT NO. A-1, JAITPUR EXTENSION, PART 2 BADARPUR, DELHI-110044 ALSO AT: SHOP NO. 200, NEW SABZI MANDI, OKHLA, NEW DELHI-110019

2. MR AKRAM QURESHI (BORROWER & MORTGAGOR) PROP. M/S BHARAT ALU COMPANY, D-1, FIRST FLOOR, FLAT NO. A- 1, JAITPUR EXTENSION, PART 2 BADARPUR, DELHI- 110044 ALSO AT: D-337, JAITPUR PART- II, BADARPUR, NEW DELHI- 110044 3. MOHD ASLAM (MORTGAGOR), S/O HAZI HANEEF, D-337, JAITPUR PART- II, BADARPUR, NEW DELHI-

4. MOHD ASRAF (MORTGAGOR), S/O HAZI HANEEF, D-337, JAITPUR PART- II, BADARPUR, NEW DELHI-

Sub: Notice issued under Section 13(2) of the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets &

Enforcement of Security Interest Act, 2002.

The undersigned being the Authorized Officer of Canara Bank, Spl SME Okhla Industrial Estate Branch, Delhi (hereinafter referred to as "the secured creditor"), appointed under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, (hereinafter referred as the "Act") do hereby

That M/s Bharat Alu Company Prop. Mr Akram Qureshi (hereinafter referred to as "the Borrower"1) has availed credit facility / facilities stated in the Schedule A hereunder and has entered into the security agreement/s in favour of the secured creditor. While availing the said financial assistance, you have expressly undertaken to repay the loan amount/s in accordance with the terms and conditions of the above mentioned agreements.

You, Akram Qureshi, Mohd Aslam and Mohd Asraf (The person mentioned in schedule B) are also entered in to agreements against the secured assets which are detailed in Schedule B hereunder.

However, from March 2024, the operation and conduct of the said financial assistance / credit facilities have become irregular. The books of account maintained by the secured assets shows that the liability of the Borrower towards the secured creditor as on date amounts to Rs. 26,08,307,93 (Rupees Twenty Six Lakh Eight Thousand Three Hundred Seven and Ninety Three Paisa), the details of which together with future interest rate are stated in Schedule C hereunder. It is further stated that the Borrower/Guarantor having failed to keep up with the terms of the above said agreement in clearing the dues of the secured creditor within the time given, and have been evasive in settling the dues. The operation and conduct of the above said financial assistance / credit facility/les. having come to a standstill and as a consequence of the default committed in repayment of principal debt/ installment and interest thereon, the secured creditor was constrained to classify the debt as Non Performing Asset (NPA) as on 08.06.2024 in accordance with the directives/guidelines relating to asset classification issued by the Reserve Bank of India.

The secured creditor through this notice brings to your attention that the Borrower has failed and neglected to repay the said dues/ outstanding liabilities and hence hereby demand you under Section 13(2) of the Act, by issuing this notice to discharge in full the liabilities of the Borrower as stated in Schedule C hereunder to the secured creditor within 60 days from the date of receipt of this notice. Further, it is brought to your notice that you are also liable to pay future interest at the rate of as per bank guidelines together with all costs, charges, expenses and incidental expenses with respect to the proceedings undertaken by the secured creditor in recovering its

Please take note of the fact that if you fail to repay to the secured creditor the aforesaid sum of Rs.26,08,307.93 (Rupees Twenty Six Lakh Eight Thousand Three Hundred Seven and Ninety Three Paisa), together with further interest and incidental expenses and costs as stated above in terms of this notice under Section 13(2) of the Act, the secured creditor will exercise all or any of the rights detailed under sub-section (4)(a) and (b) of Section 13, the extract of which is given here below to convey the seriousness of this issue:

13(4)- In case the Borrower/Guarantor fails to discharge liability in full within the period specified in sub-section (2), the secured creditor may take recourse to one or more of the following measures to recover his secured debt.

(a) Take possession of the secured assets of the Borrower/Guarantor including the right to transfer by way of ease, assignment or sale for realizing the secured asset;

(b) Take over the management of the business of the Borrower including the right to transfer by way of lease, assignment or sale for realizing the secured asset:

Provided that the right to transfer by way of lease, assignment or sale shall be exercised only where the substantial part of the business of the Borrower is held as security for the debt;

Provided further that where the management of whole of the business or part of the business is severable, the secured creditor shall take over the management of such business of the borrower which is relatable to the security for the debt:

Your attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to

SI No Loan No

You are also put on notice that in terms of section 13(13) the Borrower/Guarantor shall not transfer by way of sale.

ease or otherwise the said secured assets detailed in Schedule B hereunder without obtaining written consent of the secured creditor. It is further brought to your notice that any contravention of this statutory injunction/ restraint, as provided under the said Act, is an offence and if for any reason, the secured assets are sold or leased out in the ordinary course of business, the sale proceeds or income realized shall be deposited with the secured creditor. In this regard you shall have to render proper accounts of such realization / income.

This notice of Demand is without prejudice to and shall not be construed as waiver of any other rights or remedies which the secured creditor may have including further demands for the sums found due and payable by you. This is without prejudice to any other rights available to the secured creditor under the Act and/or any other law in

SCHEDULE-B

[Details of security assets)

Please comply with the demand under this notice and avoid all unpleasantness. In case of Non-compliance,

further needful action will be resorted to, holding you liable for all costs and consequence. SCHEDULE -A [Details of the credit facility/ies availed by the Borrower]

	- contract of the contract of		
Loan No	Nature of Loan/Limit	Date of sanction	Amount
0348285000010	OCC	16.09.2015	Rs 25,00,000.00

SI. No		Name of Title Holder		
1		NA		
			2000 20 2000	
	Shop bearing No. 20 110019 admeasurin	Akram Qureshi Mohd Aslam, Mohd Asraf		
			DULE - C ability as on date]	
SI No	Loan No	Nature Of Loan/limit	Liability With Interest as on Date	Rate Of Interest
1	0348285000010	occ	Rs. 26,08,307.93	10.95 % + Penal Interest as

per bank guidelines Authorized Officer, Canara Bank



R/O: D-98 Kamla Nagar Delhi 110007 Also at: 7/19 Roop Nagar Delhi 110007 (Guarantor) Also at: H. No. 5A/8 Pashmina House, Circular Road Amritsar, Punjab 143001 R/O: 7/19 Roop Nagar Delhi 110007 NOTICE U/S 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY

INTEREST ACT 2002 IN ACCOUNT M/S SUDHIR AGRO OILS PVT. LTD

All the other Legal Heirs of Late Ms. Kamla Khurana (Guarantor) (Deceased)

Punjab -143001

Ms. Kaushalya Devi W/O Sh. G. R. Taneja

REG: ACCOUNT NO. 0637008700002946 AND 063700NG00000942 /CREDIT FACILITIES AVAILED BY M/S SUDHIR AGRO OILS PVT. LTD. You, M/s Sudhir Agro Oils Pvt. Ltd having its registered office at D-98 Kamla Nagar Delhi -110007 have availed the following credit facilities: Limit Rate of Balance Outstanding as on date Interest from date of Total Outstanding as

N		racility	(crore)		of NPA (i.e. principal + interest)		on 31.05.2024
1.		Cash Credit (FBWC/CC/NFB/FLC/FLG)	42.00	MCLR +3.50%	Rs. 33,85,70,457.83	Rs. 29,83,54,724.00	Rs. 63,69,25,181.83
2.	Ť	Term Loan	27.80	9.65%	Rs. 47,504.00	Rs. 24,238.00	Rs. 71,742.00
	Total Rs. 63,69,96,923.83 + further interest						
D	Due to non-payment of installment/ interest/ principal debt, the account/s has/have been classified as Non-Performing Asset as on						

19.08.2019 per Reserve Bank of India guidelines. We hereby demand/recall the entire outstanding together with interest and other charges due under the above facilities. The amount due to the Bank as on 31.05.2024 is Rs. 63,69,96,923.83 (Rs. Sixty-Three Crore Sixty-Nine Lakh Ninety-Six Thousand Nine Hundred Twenty-Three and Paisa Eighty-Three only) with further interest w.e.f. 01.06.2024 until the payment in full plus other

charges, if any (hereinafter referred to as "secured debt"). To secure the outstanding under the above said facilities, you have, inter alia, created security interest in respect of the following properties/assets:

Facility	Security Description		
0637008700002946	Hypothecation of Stock, Book Debts, Other Current Assets (Present and Future)		
(FBWC/CC/NFB/FLC/FLG)	Plot No. 174, Block E, Industrial Area, Rewari Line, situated in revenue estate of Basai Dadarpur, Phase –II, New Delhi in the Name of Mrs. Kamla Khurana, measuring 418.50 Sq. Meters.		
	Residential property situated at House No.7/19, Block -7, Roop Nagar, Delhi- 110007 the name of Mrs. Kamla Khurana and Mrs. Neeru Khurana. Total covered area on ground floor & first floor is 418.06 Sq. meter, plot area 426.42 sqm		
	Residential property situated at Plot No-A-91, Malviya Nagar Scheme, Kalgiri Road, Jaipur-302017 (Raj.) in the name of Mrs. Kaushalya Taneja w/o Sh. G.R. Taneja, Plot area 589.50 sqm		
063700NG00000942 (Term Loan)	Hypothecation of Vehicle.		
We hereby call upon you to pay the amount Rs. 63,69,96,923.83 (Rs. Sixty-Three Crore Sixty-Nine Lakh Ninety-Six Thousan			

Hundred Twenty-Three and Paisa Eighty-Three only) with further interest at the contracted rate until payment in full within 60 days (sixty days) from the date of this notice. In default, besides exercising other rights of the Bank as available under Law, the Bank is intending to exercise any or all of the powers as provided under section 13(4) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (hereinafter referred to as "the Act"). The details of the secured asset/s intended to be enforced by the Bank, in the event of non -payment of secured debt by you are as under:

1) Hypothecation of Stock, Book Debts, Other Current Assets (Present and Future)

2) Plot No. 174, Block E, Industrial Area, Rewari Line, situated in revenue estate of Basai Dadarpur, Phase –II, New Delhi in the Name of Mrs. Kamla Khurana, measuring 418.50 Sq. Meters. 3) Residential property situated at House No.7/19, Block -7, Roop Nagar, Delhi- 110007 the name of Mrs. Kamla Khurana and

Mrs. Neeru Khurana. Total covered area on ground floor & first floor is 418.06 Sq. meter, plot area 426.42 sqm 4) Residential property situated at Plot No- A-91, Malviya Nagar Scheme, Kalgiri Road, Jaipur-302017 (Raj.) in the name of

Mrs. Kaushalya Taneja w/o Sh. G.R. Taneja, Plot area 589.50 sqm

5) Hypothecation of Vehicle. Your attention is hereby invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available to you to redeem the secured assets.

Please take notice that in terms of section 13(13) of the said Act, you shall not, after receipt of this notice, transfer by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business) any of the secured assets above referred to, without prior written consent of the You are also put on notice that any contravention of this statutory injunction/restraint, as provided under the said Act, is an offence. If for

any reason, the secured assets are sold or leased out in the ordinary course of business, the sale proceeds or income realized shall be deposited/remitted with/to the Bank. You will have to render proper account of such realization/income. We reserve our rights to enforce other secured assets.

Please comply with this demand under this notice and avoid all unpleasantness. In case of non-compliance, further needful action will be resorted to, holding you liable for all costs and consequences. *This notice is issued without prejudice to the bank taking legal action before DRT/Court, as the case may be.

'This notice is issued without prejudice to the bank's rights in the suit/litigation pending before DRT/Court.

We herewith vide this notice withdraw our earlier 13(2) notices dated 12.03.2020 & dated 31.10.2022 along with all subsequent actions

Yours faithfully, For Punjab National Bank Chief Manager,

AUTHORISED OFFICER

C Kubota

Escorts Kubota Limited ESCORTS KUBOTA LIMITED (Formerly Escorts Limited) CIN: L74899HR1944PLC039088

Regd. Office: 15/5, Mathura Road, Faridabad - 121003, Haryana Phone: 0129-2250222, E-mail: corp.secretarial@escortskubota.com, Website: www.escortskubota.com

NOTICE OF 78TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 78th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on Thursday, July 18, 2024, at 12:00

Noon IST through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of Companies Act,

2013 ("Act") and the rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with General Circular Nos. 14/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 2/2022, 10/2022 and 09/2023 dated April 8, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 8, 2021, December 14, 2021, May 5, 2022, December 28, 2022, and September 25, 2023 respectively and

other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "Relevant Circulars") to transact the business as set forth in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC/ OAVM through NSDL e-voting system. Members participating through the VC/ OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM ("Notice") and Integrated Annual Report containing, inter-alia, the standalone and

consolidated financial statements for the financial year 2023-24 and the Reports of Auditor's and Director's, have been sent on June 25, 2024 by electronic mode to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). The Notice and Integrated Annual Report and other relevant details are also available on the website of the Company at www.escortskubota.com and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com.

Instructions for remote e-voting and e-voting during AGM:

The Company is providing its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes remotely, using the electronic voting system of NSDL on the dates mentioned herein below ("remote e-voting"). Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and members attending the AGM who have not cast their

vote(s) by remote e-voting will be able to vote during the AGM. Information and instructions including details of user id and password relating to e-voting have been given in the Notice. The same login credentials should be

used for attending the AGM through VC/ OAVM. The manner of remote e-voting and voting during the AGM by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not

registered their email addresses is provided in the Notice which is also available on the website of the Company at www.escortskubota.com and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. The remote e-voting details are as follows:

EVEN (E-Voting Event Number)	128822
Cut-off date for remote e-voting	July 11, 2024
The remote e-voting period	The period of remote e-voting shall commence at 09:00 A.M. (IST) on Monday, July 15, 2024 and end at 05:00 P.M. (IST) on Wednesday, July 17, 2024.
	The remote e-voting shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

A person, whose name is recorded in the Register of Member ("RoM") or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. Thursday, July 11, 2024, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or participate at the AGM and voting during the AGM.

Manner of registering/ updating email addresses who have not registered/ updated their email addresses with the Company: Members are requested to register/ update their email addresses in respect of shares held in electronic form with their Depository Participant(s) and in respect

of shares held in physical form by sending duly filled and signed Form ISR-1 available on Company's website at https://www.escortskubota.com/investors/usefull-links/forms.html, to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company - KFin Technologies Limited at Selenium Building, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi, Telangana, India - 500032 or through electronic mode with e-sign by the following link: https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx.

Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date may obtain the User ID and Password in the manner as provided in the Notice, which is available on Company's, Stock Exchange's and NSDL's website. Such members may cast their votes using the e-voting instructions, in the manner specified in the Notice.

The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

In case of any query and/ or grievance, in respect of voting by electronic means, members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 or send an e-mail to Ms. Pallavi Mhatre. Senior Manager at evoting@nsdl.co.in or contact at Trade World, Awing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai – 400013.

By the order of the Board For Escorts Kubota Limited Arvind Kumar Company Secretary

Place: Faridabad Date: June 25, 2024

















जनसता

26 जून, 2024

खबर कोना

पंप चलाते समय लगा करंट, व्यक्ति की मौत

जनसत्ता संवाददाता ग्रेटर नोएडा, 25 जून।

थाना इकोटेक थ्री क्षेत्र के कुलेसरा गांव में मंगलवार सुबह एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक, कुलेसरा गांव में हरि सिंह (55) परिवार के साथ रहते थे। मंगलवार सुबह हरि सिंह सबमर्सिबल पंप को चलाने गए थे, तभी उन्हें करंट लग गया। घटना में वह गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

कार से रिक्शा टकराने पर दो भाइयों पर जानलेवा हमला

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 25 जून।

उत्तर पूर्वी जिले के मौजपुर इलाके में कार से रिक्शा टकराने पर चार लोगों ने दो भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले के दौरान एक ने पिस्टल निकालकर गोली भी चलाई। निशाना चूक गया तो सिर पर पिस्टल की बट से हमला कर दिया। हमले में रवि चौधरी नाम के व्यक्ति को गंभीर चोट आई हैं। पीडितों की शिकायत पर अर्जुन कौशिक, हर्ष शर्मा, मनन कौशिक और वैभव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक, रविवार रात करीब 11:20 बजे राशिद रिक्शे से गोबर डालने के लिए जा रहा था। जब वह मौजपुर चौक पर पहुंचा तो उसका रिक्शा एक कार से टकरा गया। आरोप है कि कार सवार मनन और वैभव ने रिक्शा चालक की पिटाई कर दी। पीड़ित ने फोन कर मालिक रवि को सूचना दी। रवि अपने भाई गौरव के साथ मौके पर पहुंच गया। रवि का आरोप है कि उसने कार सवारों से कहा कि वह उनकी कार में हुए नुकसान की भरपाई कर देगा। लेकिन वह नहीं माने। कार सवारों ने फोन कर अर्जुन और हर्ष को मौके पर बुला लिया।

बोटेनिकल गार्डन से जुड़ेगी एक्वा मेट्रो

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, निर्माण में करीब 2254.35 करोड़ रुपए होंगे खर्च

जनसत्ता संवाददाता

नोएडा, 25 जून।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच चलने वाली एक्वा मेट्रो ट्रेन को सीधे बोटेनिकल गार्डन से जोड़ा जाएगा। ग्रेटर नोएडा एक्वा मेट्रो को बोटेनिकल गार्डन तक ले जाने के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार ने पाच साल में मंगलवार को मंजूरी दे दी बनकर तैयार है। नोएडा–ग्रेटर नोएडा के

होगा मार्ग। निवासी काफी समय से एक्वा मेट्रो ट्रेन को बोटेनिकल गार्डन से जोड़ने की मांग कर रहे थे। यह मार्ग पांच साल में बनकर तैयार होगा। इसके निर्माण में करीब 2254.35

करोड रुपए खर्च होंगे। इस रूट के संचालन के साथ बोटेनिकल हैं। नया लिंक बनने से मैजेंटा और ब्लू लाइन

नई लाइन पर आठ स्टेशन होंगे इस मेट्रो कारिडोर पर बोटेनिकल गार्डन, नोएडा सेक्टर-44, नोएडा कार्यालय, नोएडा सेक्टर-97, नोएडा सेक्टर-105, नोएडा सेक्टर-108, नोएडा सेक्टर–93, और पंचशील बालक इंटर कालेज स्टेशन बनाए जाएंगे। कारिडोर का आखिरी स्टेशन सेक्टर-142 होगा, जो पहले ही बनकर तैयार है। यह कारिडोर एक्सप्रेस वे के बाईं ओर से जाएगा।

गार्डन मेट्रो स्टेशन नोएडा, ग्रेटर नोएडा मेट्रो का सबसे बड़ा 'इंटरचेंज' होगा। यहां से दिल्ली के द्वारका से नोएडा के सेक्टर-62 तक चलने वाली ब्लू लाइन और बोटेनिकल गार्डन से जनकपुरी तक जाने वाली मजेंटा लाइन जुड़ी

वर्तमान में नोएडा और ग्रेटर नोएडा आपस में एक्वा लाइन से जुड़ी हैं। यह लाइन सेक्टर-51 मेट्रो स्टेशन से ग्रेटर नोएडा डिपो तक है, जो २९ किलोमीटर लंबा है। यह डीएमआरसी के सेक्टर-52 मेट्रो

नोएडा जाने में फायदा मिलेगा। नई लिंक लाइन

की डीपीआर के मुताबिक एक नया प्लेटफार्म

या सेक्शन बनाया जाएगा, जो बोटेनिकल गार्डन

मेट्रो को जोडेगा। यह एक्ष लाइन होगी, इसलिए

स्टेशन के ब्लू लाइन को जोड़ता है। नए लिंक बनने से ऐसा नहीं होगा। वहीं, डीएमआरसी की नोएडा में दो लाइन है। पहली ब्लू लाइन, जो दिल्ली के द्वारका से नोएडा के सेक्टर-62 और दूसरी मैजेंटा लाइन, जो नोएडा के बोटेनिकल गार्डन से जनकपुरी तक है। के यात्रियों को नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक्सप्रेस-वे के समानांतर सेक्टर, और ग्रेटर

इसका ट्रैक भी डीएमआरसी के ट्रैक से अलग होगा। संभावना है कि बोटेनिकल गार्डन में इस सेक्शन को बनाया जाए और प्रवेश और निकासी प्वाइंट बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से ही दिए जाए, क्योंकि इस नए लिंक के लिए अलग से टोकन काउंटर बनाए जाएंगे।

सीधे जुड़ेगी एनएमआरसी और डीएमआरसी

कलेक्ट्रेट परिसर में युवक ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह का किया प्रयास

ग्रेटर नोएडा, 25 जून (संवाददाता)।

सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में एक युवक ने खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर अत्मदाह का प्रयास किया। पुलिस की सूझबूझ के चलते उसकी जान बची।

थाना सूरजपुर पुलिस के मुताबिक, सादोपुर गांव का रहने वाला सचिन मंगलवार दोपहर पेट्रोल की बोतल लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा। कलेक्ट्रेट में उसने खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। इसी दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। शुरुआती जांच में पता चला है कि सचिन नशे का आदी है और पूर्व में भी जेल जा चुका है। एडीसीपी सेंट्रल नोएडा ह्रदेश कटेरिया के मुताबिक सचिन अपने माता-पिता से संपत्ति में अपना हिस्सा मांग रहा है। इसी के चलते उसने कलेक्ट्रेट में आत्मदाह की कोशिश की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कोफोर्ज कंपनी में तीन कर्मचारियों की मौत का मामला

परिजनों का आरोप, प्रबंधन ने जबरन टैंक में उतारा था

ग्रेटर नोएडा, 25 जून (संवाददाता)।

थाना इकोटेक वन क्षेत्र स्थित कोफोर्ज कंपनी में सोमवार रात हादसे में जान गंवाने वाले तीन कर्मचारियों के परिजनों ने प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि बिना सुरक्षा उपकरणों के कर्मचारियों को एसटीपी टैंक में उतारा गया था। इस दौरान खतरनाक रसायन की चपेट में आने के कारण तीनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों कर्मचारियों को पौली एल्युमिनियम क्लोराइड से टैंक साफ करने के लिए उतारा गया था।

परिजनों के मुताबिक, कर्मचारियों से हमेशा बिना मास्क, सिलेंडर, बौडी सुट के काम कराया जाता था। मोहित ने यह बात परिजनों को भी बताई थी। परिजनों ने हादसे की आशंका जताई, तो उन्होंने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। रात में हादसे की खबर मिलते ही दनकौर के हतेवा गांव निवासी मोहित के परिजन जिम्स अस्पताल पहुंच गए। मोहित 12वीं का छात्र था। मथुरा के बरसाना निवासी अंकित व

प्रत्येक मृतक के परिवार को 12 लाख रुपए, एक सदस्य को नौकरी डीसीपी साद मियां खान ने बताया कि पीडित परिवारों की क्षतिपूर्ति के लिए प्रबंधन के साथ लंबी बातचीत चली। इसके बाद तय किया गया है कि प्रत्येक मृतक के परिवार को 12-12 लाख रुपए बतौर क्षति पूर्ति दिए जाएंगे। इसके अलावा मृतकों के माता-पिता को जीविकोपार्जन के लिए 15 हजार रुपए प्रति माह पेंशन के रूप दिए जाएंगे। मृतक परिवार से एक सदस्य को कंपनी में नौकरी दी जाएगी। शव के अंतिम संस्कार के लिए 15 हजार रुपए और 15 हजार शव पैतृक गांव तक ले जाने के लिए दिए गए हैं।

कानपुर निवासी हरि गोविंद के परिजन ग्रेटर नोएडा पहुंच गए हैं। वहीं, परिजनों की शिकायत पर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।



विरोध गुरुग्राम में मंगलवार को नीट-यूजी में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करते युवा कांग्रेस कार्यकर्ता।

Escorts Kubota Limited एस्कॉर्ट्स क्बोटा लिमिटेड

(पूर्व एस्कॉर्ट्स लिमिटेड) सीआईएन: L74899HR1944PLC039088 रजि. कार्यालयः 15/5, मधुरा रोड, फरीदाबाद–121003, हरियाणा

फोन: 0129-2250222, ई-मेल: corp.secretarial@escortskubota.com, वेबसाइट: www.escortsgroup.com

78वीं वार्षिक आम बैठक एवं ई-वोटिंग के सूचनार्थ

एत्तदद्वारा द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 78वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") गुरुवार, 18 जुलाई, 2024 को भारतीय समयानुसार दोपहर 12:00 बजे कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम") के लागू प्रावधानों के अनुपालन में सामान्य परिपत्र संख्या 14 के साथ पढ़ें / 2020, 20 / 2020, 02 / 2021, 19 / 2021, 21 / 2021, 2 / 2022, 10 / 2022 और 09 / 2023 दिनांक 8 अप्रैल 2020, 5 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 8 दिसम्बर 2021 , क्रमश: 14 दिसंबर, 2021, 5 मई, 2022, 28 दिसंबर, 2022, और 25 सितंबर, 2023 और कॉपोरेट मामलों के मंत्रालय **(''एमसीए'')** और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्र (सामूहिक रूप से प्रासंगिक परिपत्र के रूप में संदर्भित)) एजीएम बुलाने के नोटिस में बताए अनुसार कारोबार करने के उद्देश्य से **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'') / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (''ओएवीएम'')** के माध्यम से आयोजित की जाएगी। सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम से एजीएम में भाग ले सकेंगे। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले

सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना ("नोटिस") और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के अलावा, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों व निदेशकों की रिपोर्टे शामिल हैं, 25 जून, 2024 को कंपनी के उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत हैं को भेज दिया गया है।

नोटिस और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट व अन्य प्रासंगिक विवरण कंपनी की वेबसाइट www.escortskubota.com और स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध हैं। साथ ही क्रमशः www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("NSDL") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के निर्देश:

कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("ई-बोटिंग") द्वारा एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य नीचे उल्लिखित तिथियों ("रिमोट ई-वोटिंग") पर एनएसडीएल की इलेक्ट्रोंनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके दरस्थ रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

इसके अलावा, एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान मतदान कर सकेंगे।

नोटिस में ई—वोटिंग से संबंधित यूजर आईडी और पासवर्ड के विवरण सहित जानकारी और निर्देश दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए समान लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग किया जाना चाहिए

डीमैटरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए एजीएम के दौरान रिमोट ई—वोटिंग और वोटिंग का तरीका नोटिस में प्रदान किया गया है जो कंपनी की वेबसाइट <u>www.escortskubota.com</u> पर भी उपलब्ध है और स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर क्रमश: <u>www.bseindia.com</u> और <u>www.nseindia.com</u> व एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग विवरण इस प्रकार हैं:

स्थानः फरीदाबाद

दिनांक: जून 25, 2024

(ई—बोटिंग इवेंट नंबर) रिमोट ई—वोटिंग के लिए अंतिम तिथि	128822
दूरस्थ ई–वोटिंग अवधि	11 जुलाई, 2024
रिमोट ई—बोटिंग की अवधि	सोमवार, 15 जुलाई, 2024 को सुबह 09:00 बजे (IST) शुरू होगी और बुधवार, 17 जुलाई, 2024 को शाम 05:00 बजे (भारतीय समयानुसार) पर समाप्त होगी।
	उसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई—वोटिंग अक्षम कर दी जाएगी।

वो व्यक्ति, जिसका नाम कट—ऑफ तिथि, यानी गुरुवार, 11 जुलाई, 2024 को सदस्य के रजिस्टर ("आरओएम") या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लागकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान वोटिंग की सुविधा का लाम उठाने का हकदार होगा।

जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत / अपडेट नहीं किए हैं उनके लिए ईमेल पते पंजीकृत / अपडेट करने का तरीकाः

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में कंपनी की वेबसाइट https://www.escortskubota.com/investors/usefull-links/forms.html, पर उपलब्ध विधिवत भरे और हस्ताक्षरित फॉर्म ISR-1 भेजकर अपने ईमेल पते को पंजीकृत / अपडेट करें और कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट को – केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर–बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत — 500032 या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निम्नलिखित लिंक से ई-साइन कर https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx पर प्रेषित करें।

कोई भी व्यक्ति जो नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट—ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है, वह नोटिस में दिए गए तरीके से युजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है, जो कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज और एनएसडीएल पर उपलब्ध है। वेबसाइट। ऐसे सदस्य नोटिस में निर्दिष्ट तरीके से, ई—वोटिंग निर्देशों का उपयोग करके अपना वोट डाल सकते हैं।

जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट डाला है. वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं. लेकिन वे एजीएम में दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के संबंध में किसी भी प्रश्न और / या शिकायत के मामले में, सदस्य <u>www.evoting.nsdl.com</u> के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध सहायता और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई—वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का उल्लेख कर सकते हैं या 022 – 4886 7000 पर कॉल करें अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे. वरिष्ठ प्रबंधक को evoting@nsdl.co.in पर ई—मेल भेजें या ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई पर संपर्क करें — 400013

> बोर्ड के आदेशानसार एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड के लिए एसडी /-अरविंद कुमार

पर्यावरण संरक्षण के लिए यमुना किनारे बीज छिड़काव अभियान शुरू

जनसत्ता सवाददाता नई दिल्ली, 25 जून।

दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में पौधरोपण अभियान को बढ़ावा देने के लिए एनजीओ के एक समूह ने मंगलवार बाज और आटे की गोलियां बनाकर

को यमुना किनारे बीज छिड़काव अभियान शुरू किया। कार्यक्रम की यमुना किनारे शुरुआत बीज और आटे की गोलियां बनाने के साथ हुई और फिर इनको

पक्षी खाएंगे और उनके द्वारा अलग-अलग जगहों पर फेंका गया मलमूत्र बीजों के अंकुरण में मदद करेगा। इस दौरान विभिन्न गैर सरकारी संगठनों

के पदाधिकारियों विशष्ठ धाम सेवा ट्रस्ट व ओमसुधा कुटुम्बकम फाउंडेशन की अध्यक्षा

रेणु शर्मा, स्वयंभू शिव शक्ति ट्रस्ट के संस्थापक सतीश भरिहोके, ट्रस्टी सदस्य रमनजीत कौर, जन कल्याण भूमि मुक्ति फाउंडेशन के अध्यक्ष राजेश सेजवाल, बिहारी वेलफेयर सोसायटी के

राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय भाई, बाबा हरि दास, डा आरपी सिंह व स्वयंसेवक अभिनव गोयल ने पर्यावरण संरक्षण में वृक्षों के महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के बिखेरा गया। लिए हाथ मिलाया। अभियान के

यमुना किनारे बिखेरा गया। इन गोलियों को तहत वासुदेव घाट पर पांच पौधे लगाए गए। गीता कालोनी में पुल के नीचे की जमीन पर आम के बीज बोए गए। राजेश सेजवाल ने मिट्टी खोदी, जबिक रेणु शर्मा व सतीश भरिहोके ने आम की गुठली बोई। इस अवसर पर रेणु शर्मा ने कहा कि फलों के बीज बोने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को बचाना है।

मंगोलपुरी में मस्जिद पर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई, लोगों का प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 25 जून।

मंगोलपुरी में मंगलवार को मस्जिद द्वारा अतिक्रमण किए जाने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुछ हिस्सों को गिराया गया। जिससे नाराज स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। बता दें कि एमसीडी रोहिणी जोन ने यह कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ की गई है।

बता दें कि मामला करीब सुबह छह बजे का है जब एमसीडी ने तोड़-फोड़ अभियान शुरू किया। जिसे देखकर स्थानीय लोग वहां एकत्र हो गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस उपायुक्त बाहरी दिल्ली जिमी चिराम ने में भी दायर की गई है।

्री बैंक ऑफ़ बड़ौदा Book

Sushant Lok Branch, Gurgaon, GF 1 & 2,

The Peach Tree Mall Building, C Block,

Sushant Lok 1, Gurgaon- 122 001 (Haryana),

India Phone 91 0124 2572210 (CM) PUBLIC NOTICE

This is to inform the general public that Bank

of baroda Sushant lok Branch intends to

accept the undermentioned property

standing in the name of Mr Raghav Prasad &

Mrs Barkha Deva resident of Apartment no D-

79, Situated at block D, Gali no 10, Saket New

delhi as a security for a loan/ credit facility

In case anyone has got any right/title/interest

claims over the undermentioned property

they are advised to approach the branch

within 10 days along with necessary proof to

If no response is received within 10 days, it is

presumed that the property is free of any

charge/ claim/encumbrance and bank shall

Detail of property:

H no D-79, Gali no 10,

Saket New Delhi 110017.

Chief Manager, Bank of Baroda

requested by one of its customers.

substantiate their claim.

proceed with the mortgage.

Bank of Baroda

कहा कि दीवारें गिराए जाने के बाद अभियान को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है क्योंकि अतिक्रमण के कुछ हिस्सों को हटाने के लिए भारी मशीनरी की आवश्यकता है। एमसीडी का कहना है कि इस दौरान 20 मीटर अनिधकृत संरचना को सफलतापूर्वक हटाया गया है। इस दौरान भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों ने जेसीबी के प्रवेश को रोकने के लिए मानव श्रृंखला बना ली। अधिकारी भीड़ को रोकने में असमर्थ रहे तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एमसीडी ने अभियान को अस्थायी रूप से रोकने की सलाह दी। इस मुद्दे के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट

दो समुदाय के बीच चले लाठी डंडे, पथराव में तीन लोग घायल

ग्रेटर नोएडा, 25 जून (संवाददाता)।

थाना जारचा इलाके के जैतवारपुर प्यावली में मामूली बात पर दो समुदायों के बीच लाठी डंडे व पथराव हुआ। जिसमें दोनों पक्षों से तीन लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पथराव शांत कराया। दोनों पक्षों की तरफ से 13 लोग नामजद और

40 अज्ञात के खिलाफ रपट दर्ज की गई है। पुलिस सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना जारचा क्षेत्र

के खिलाफ नामजद और 40 के जैतवारपुर प्यावली अज्ञात पर रपट में दीपक, संदीप व

दोनों पक्षों की

तरफ से 13 लोगों

नसीब परिवार के साथ रहते हैं। 23 जून की शाम को दीपक व संदीप रास्ते में जा रहे थे। इस दौरान उनकी नसीब से कहासूनी हो गई, जो जल्द ही गाली गलौज में बदल गई। शोर होने के चलते दोनों तरफ के लोग आ गए। एक दुसरे को सबक सिखाने की धमकी देते ही दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे। इस दौरान एक पक्ष मकान की छतों पर चढ़कर पथराव करने लगा। जबिक दूसरा पक्ष रास्ते में सड़क पर खड़े होकर पथराव करता रहा। घटना की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। पुलिस ने दोनों पक्षों को किसी तरह से शांत कराया। उस दौरान मेहताब के घर पर नसीब, हसीन समेत तीन लोग घायल अवस्था में पड़े मिले। एनटीपीसी पुलिस चौकी प्रभारी मनोज कुमार ने दोनों पक्षों की तरफ से विनोद, निशांत, कृष्णा, दीपक, संदीप, कुलदीप, नसीबू, नईम, हसीन, वसीम, मेहताब, मोहसिन, आदिल को नामजद किया गया। साथ ही 40 लोग अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई । इस मामले में विनोद, निशांत, वसीम, नईम, नसीबू, मेहताब और हसीन को गिरफ्तार कर लिया।

भाजपा ने कहा, निगम आयुक्त पुरानी दिल्ली का करवाएं सर्वे

पुरानी दिल्ली में एक और इमारत गिरी

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 25 जून।

राजधानी में हजारों जर्जर मकान हैं जो रखरखाव के चलते खतरनाक स्थिति में हैं, बावज़द इसके दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) उनका व्यापक सर्वे नहीं करवा रही है। जिसे लेकर एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष सरदार राजा इकबाल सिंह ने 20 जून को सवाल भी उठाया था क्योंकि एमसीडी के सर्वे के अनुसार 17.94 लाख मकानों में से सिर्फ चार

मकानों को ही खतरनाक श्रेणी में दिखाया गया था। वहीं मंगलवार को पुरानी दिल्ली के चरखेवालान में एक इमारत का बड़ा हिस्सा ढ़ह गया और इमारत का हिस्सा ढहने के बाद एमसीडी ने मालिक को नोटिस जारी किया। जिससे साफ है कि एमसीडी ने

सर्वे के नाम पर सिर्फ लीपापोती की है। बता दें कि पुरानी दिल्ली में मंगलवार को इमारत गिरने के बाद भाजपा दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपर ने कहा कि ऐसे हजारों जर्जर मकानों में लोग परिवार सहित रह रहे है जो चिंता की बात है।

17 जून से आज 25 जून के बीच पुरानी दिल्ली के सीताराम बाजार वार्ड 75 में दो मकानों के जर्जर हिस्से अचानक गिरने के बाद मंगलवार को घने बाजार के बीच 3842 गली लोहे वाली, चरखेवालान में एक इमारत जिसके भृतल पर तीन दुकानें व ऊपर एक परिवार रहता है। ऐसे में इमारत का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिरना, बड़े हादसे को दावत देने जैसा है। एक माह से बार बार महापौर डा शैली ओबेराय से खतरनाक भवनों के सर्वे के साथ उनपर कार्रवाई और संरक्षण की मांग करते रहे हैं।

www.readwhere.com

कंपनी सचिव